

CIN: L15421MP2011PLC027287  
GSTIN: 23AAGCP3350D1ZW

# Parvati Sweetners And Power Limited

Registered Office: Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk,  
Bhopal- 462003 (MP), Ph. No. 0755 – 4009254, Email: info@parvatisweetners.com

PSPL/SE/PC/2022-23

2<sup>nd</sup> August, 2022

Online filing at [www.listing.bseindia.com](http://www.listing.bseindia.com)

To,  
The General Manager  
DCS-CRD  
BSE Ltd.  
Rotunda Building  
P.J. Tower, Dalal Street, Fort  
Mumbai – 400001

**Scrip Code: 541347**

**Symbol: PARVATI**

**ISIN: INE295Z01015**

**SUB: SUBMISSION OF PRESS CLIPPING RELATED TO NOTICE OF 02/2022-23 BOARD MEETING.**

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A(A) and in compliance of Regulation 47(1)(a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 regarding publishing of intimation of notice of 02/2022-23 Board Meeting of the company to be held on **Monday, 8<sup>th</sup> August, 2022 at 03:30 P.M.** at the Registered Office of the Company at Hall No. 2. Shopping Complex, Gomantika Parisar, Jawahar Chowk, Bhopal - 462003 (MP).

We herewith enclosed the newspaper advertisement published on 2<sup>nd</sup> August, 2022 in Business Standard English edition and Business Standard Hindi edition.

You are requested to please take on record our above said information for your reference and record.


Thanking you.

Yours faithfully

**For, Parvati Sweetners And Power Limited**

**POONAM CHOUKSEY**  
**MANAGING DIRECTOR**  
**DIN NO.:02110270**

Encl. - a/a



For Parvati Sweetners and Power Ltd.

Director/Authorised Signatory

**BAG B.A.G. Films and Media Limited**  
 CIN: L74899DL1993PLC051841  
 Regd. Office: 352, Aggarwal Plaza, Plot No.8, Kondli, New Delhi-110096  
 Corporate Office: FC-23, Film City, Sector-16A, Noida-201301, (U.P.)  
 Tel: 91 120 460 2424, Fax No. 91 120 3911 401  
 Web: www.bagnetwork24.in, Mail: info@bagnetwork.in

**29<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING OF B.A.G. FILMS AND MEDIA LIMITED TO BE HELD THROUGH VC (VIDEO CONFERENCING)/OAVM (OTHER AUDIO VISUAL MEANS)**

NOTICE is hereby given that the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of Members of B.A.G. Films and Media Limited ("the Company") will be held on Monday, August 29, 2022 at 4:30 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of AGM which is being circulated for convening the AGM.

In view of the Continuing COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 read with General Circular No. 14/2020 & 17/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13<sup>th</sup> January, 2021, Circular No. 21/2021 dated 14<sup>th</sup> December, 2021 and 02/2022 dated 5<sup>th</sup> May 2022 respectively, (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/DDHS/P/ CIR/2022/0063 dated 13<sup>th</sup> May, 2022 ("collectively referred to as SEBI Circulars") have permitted the holding of the AGM through VC / OAVM, without the physical presence of the Members at the common venue. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations") read with other MCA Circulars and SEBI Circulars, the 29<sup>th</sup> AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is being sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. Members may take note that the Notice of AGM and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website: www.bagnetwork24.in website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum as per section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed procedure for remote e-voting/e-voting is provided in the Notice of the AGM.

In case Member(s) have not registered their e-mail addresses with the Company/ Depository, please follow the below instructions to register your e-mail address for obtaining Annual Report and login details for e-voting.

- For members holding shares in Physical mode- please provide necessary details like Folio No., Name of Member, Copy of share certificate, PAN (self-attested) Aadhar (self-attested) by email to info@bagnetwork.in or info@alankit.com.
- Member holding shares in Demat mode can get their E-mail id registered by contacting their respective Depository Participant or by email to info@bagnetwork.in.
- Alternatively, Members may send a request to NSDL at evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents. The 29<sup>th</sup> AGM Notice will be sent to the shareholders holding shares as on cut-off date for the dispatch in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses in due course.

In case you have any queries /grievances pertaining to remote e-voting (before the AGM and during the AGM), you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available in the download section of www.evoting.nsdl.com or call on the toll-free number: 1800-222-990/1800 224 430 or contact Ms. Soni Singh, Assistant Manager-NSDL at evoting@nsdl.com.

By Order of the Board of Directors  
 For B.A.G. Films and Media Limited

Sd/-  
 Rajeev Parashar  
 Company Secretary

Date: 01.08.2022

Place: Noida

**PARVATI SWEETNERS AND POWER LIMITED**  
 CIN: L15421MP2011PLC027287 | GSTIN: 23AAGCP3350D12W  
 Reg. Off.: Hall No. 2, Shopping Complex, Gomantika Parisar,  
 Jawahar Chowk, Bhopal- 462003 (MP)  
 Tel. Ph. - 0755-4009254, Email: info@parvatisweetners.com

**NOTICE**

NOTICE pursuant to Regulation 29(1) (a) read with Regulation 47(1) (a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 is hereby given that the Meeting of the Board of directors of the Company will be held on Monday, the 8th August, 2022 at 03:30 P.M. at the Registered Office of the Company to consider and approve the Standalone Un-Audited Quarterly Financial Results for the Quarter ended on 30th June, 2022, along with other routine business.

For further details, please refer the web link:  
<https://parvatisweetners.co.in/> & <https://www.bseindia.com/stock-share-price/parvatisweetners-and-power-ltd/parvati541347/>

For Parvati Sweetners & Power Limited  
 Sd/-  
 POONAM CHOUKSEY  
 MANAGING DIRECTOR  
 DIN: 02110270

Place: Bhopal

Date: 01st August, 2022

**HDFC BANK**  
 Registered Office: HDFC Bank House, Senapathi Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai  
 Department for Special Operation:  
 Savitri, 597-3/2, GCF Road, Civil Line, Jabalpur, Madhya Pradesh - 482001

**DEMAND NOTICE**

**Demand Notice u/s. 13(2) of Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act).**

1. Mr. Kunwar Pushpendra. Singh S/o Devendra Singh (Director & Mortgagee of M/s Oxygen Lifeline Retail Pvt Ltd under CIRP process)

2. Mr. Roopendra Singh Chouhan S/o Devendra Singh (Director & Guarantor M/s Oxygen Lifeline Retail Pvt Ltd under CIRP process)

3. Mr. Sachin Singh S/o Mahipal Singh (Guarantor of M/S Oxygen Lifeline Retail Pvt Ltd under CIRP process), 54-E, Sheetal Nagar, Near Hotel Radisson, Vijay Nagar, Indore, Madhya Pradesh-452010.

4. Mrs. Urvashi Bhadauriya D/o Arun Bhadoriya (Guarantor of M/S Oxygen Lifeline Retail Pvt Ltd under CIRP process), 114, Patel Bagh Colony, Near BSNL office, Indore, Madhya Pradesh-452010.

Notice is hereby given to you that the envelope containing the notice dated 16.07.2022 issued by the Authorised officer of HDFC Bank Ltd. u/s. 13(2) of the SARFAESI Act by Speed Post A/D/Registered Post could not be effected in the ordinary manner and therefore said notice has pasted at your last known address.

Notice is therefore hereby served to you vide Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 that you had availed credit facility and on account of defaults committed by you in repayment, your account has been classified as "Non Performing Assets" (NPA) on 29.12.2021 in accordance with the Reserve Bank of India guidelines and as such you are hereby called upon to pay the entire outstanding amount of to Rs. 6,56,03,958.68/- (Rupees Six Crores Fifty Six Lakhs Three Thousand Nine Hundred Fifty Eight and Sixty Eight Paise Only) as on 30.06.2022 alongwith further interest at the contractual rate and other costs, charges, incidental expenses thereto till payment within 60 days from the publication of this notice, failing which HDFC Bank Ltd. (HDFC) shall take possession of the secured (mortgaged/hypothecated) assets as detailed below and exercise all the rights and powers provided u/s.13(4) of the said Act, without prejudice to any of the other rights provided under the laws of the land.

You are also put to notice u/s.13(13) that you shall not transfer the said asset by sale, lease or otherwise without obtaining prior written consent of HDFC Bank Ltd..

**Secured Asset: Moveable Property - Hypothecated stocks and book debts**

**Immovable Property:** Commercial Property situated at Plot No.168 at Scheme No.78, Part-II, Commercial cum Residential, Indore, Madhya Pradesh owned by Mr. Kunwar Pushpendra Singh, Area-180 Sq.Mtr., Boundaries: South-East Road, North - West-Road, North - East-Plot No. 168-A, South-West-Plot No.167.

Your attention is also invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Sd/-  
 Authorised Officer  
 For HDFC Bank Limited,

Date: 01.08.2022

Place: Indore (M.P.)

**TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED**  
 A Tata Power and Delhi Government Joint Venture  
 Regd. Office: NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi - 110 009  
 Tel: 66112222, Fax: 27468042, Email: TPDDL@tatapower-dli.com  
 CIN No. - U40109DL2001PLC11526, Website: www.tatapower-dli.com

**NOTICE INVITING TENDERS** Aug 02, 2022

TATA Power-DDL invites tenders as per following details:

Tender Enquiry No. / Work Description	Estimated Cost/EMD (Rs.)	Availability of Bid Document	Last Date & Time of Bid Submission/ Date and time of Opening of bids
TPDDL/ENGG/ENQ/200001447/22-23 Annual Rate Contract for Supply of Street Light Components	5.30 Crs/ 10,00,000	02.08.2022	23.08.2022:1600 Hrs 23.08.2022:1700 Hrs
TPDDL/ENGG/ENQ/200001446/22-23 Supply & installation of Air Conditioners 1.5 Tr & 1.0 Tr at TPDDL various offices (SAC & WAC).	39 Lacs/ 98,000	02.08.2022	23.08.2022:1500 Hrs 23.08.2022:1700 Hrs

**CORRIGENDUM / TENDER DATE EXTENTION**

Tender Enquiry No. / Work Description	Previously Published Date	Revised Due Date & Time of Bid Submission/ Date & time of opening of bids
TPDDL/ENGG/ENQ/200001435/22-23 Annual Rate Contract for supply of LT XLPE Power Cables at Tata Power-DDL Site/Store.	11.07.2022	09.08.2022 at 1500 Hrs/ 09.08.2022 at 1530 Hrs

Complete tender and corrigendum document is available on our website [www.tatapower-dli.com](http://www.tatapower-dli.com) → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents

Contracts - 011-66112222

**APPENDIX IV**  
 [See rule 8 (1)]  
**POSSESSION NOTICE**  
 (for immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED (CIN:L65922DL2005PLC136029) under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated 20.04.2022 calling upon the Borrower HEMANT SHARAD TILWANKAR AND ARCHANA TILWANKAR to repay the amount mentioned in the Notice being Rs.47,05,706.41 (Rupees Forty Seven Lakhs Five Thousand Seven Hundred Six and Paise Forty One Only) against Loan Account No. HLLIND00325223 as on 18.04.2022 and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The Borrower(s) having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the Borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on 27.07.2022.

The Borrower(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED for an amount of Rs.47,05,706.41 (Rupees Forty Seven Lakhs Five Thousand Seven Hundred Six and Paise Forty One Only) as on 18.04.2022 and interest thereon.

The Borrowers' attention is invited to provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available, to redeem the Secured Assets.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

PLOT BEARING NUMBER- 509 HAVING TOTAL AREA OF 135 SQUARE METER SITUATED IN SLICE NUMBER - 4 OF SCHEME NUMBER - 97 PART- 4 OF INDORE DEVELOPMENT AUTHORITY, INDORE- 452012, MADHYA PRADESH AND THE PLOT IS BOUNDED AS FOLLOWS:-

IN EAST : PLOT NUMBER 510, SCHEME NUMBER 97 PART-4,

IN WEST : PLOT NUMBER 508, SCHEME NUMBER 97 PART-4,

IN NORTH : 9.00 METER WIDE ROAD, SCHEME NUMBER 97 PART-4,

IN SOUTH : PLOT NUMBER 519 AND 520, SCHEME NUMBER 97 PART-4

Date : 27.07.2022  
 Authorised Officer  
 Place: INDORE INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED

**IFB AGRO INDUSTRIES LIMITED**  
 CIN: L01409WB1982PLC034590  
 Regd. Office: Plot No. IND 5, Sector- I, East Kolkata Township, Kolkata-700107  
 Ph: 033-39849675, Fax: 24421003  
 Email: complianceifbagro@ifbglobal.com  
 Website: www.ifbagro.in

**NOTICE**

Notice is hereby given that the date of meeting of the Board of Directors of IFB Agro Industries Limited has been rescheduled on Monday, the 8th day of August, 2022 to consider and take on record the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended 30 June, 2022 and other matter.

The information contained in this notice is also available on the Company's website [www.ifbagro.in](http://www.ifbagro.in) and also on the website of Stock Exchanges viz. BSE Limited- [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd. - [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

For IFB Agro Industries Limited  
 Ritesh Agarwal  
 Company Secretary

Place : Kolkata Date: 01.08.2022

**HDFC BANK LTD.** We understand your world  
 Dept. for Special Operations,  
 Peninsula Business Park, B Wing, 4th floor Dawn Mills Compound,  
 Ganpat Rao Kadam Marg, Lower Parel (West), Mumbai- 400 013

**POSSESSION NOTICE.**

Whereas The Undersigned being the Authorised Officer of the HDFC Bank Limited, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of power conferred under Section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 30th July, 2019 calling upon the below mentioned borrower & guarantors to repay the amount mentioned therein within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, guarantors and public in general that pursuant to the order of the District Magistrate, Khandwa, Madhya Pradesh passed on 16th November 2021, the undersigned has taken possession of the property described herein below through the Tahsildar, Khandwa, District-Khandwa, Madhya Pradesh in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 on this 29.07.2022.

**Details of the Borrower, Guarantors and immovable Property etc.**

S. No.	Name	Demand Notice Date	Amount mentioned in the Notice*
1.	M/S Shakti Trading Company (Borrower)		
2.	Mr. Mukesh Patil S/O-Govind Patil (Proprietor, Mortgagee)	30.07.2019	₹ 17,58,122.66
3.	Smt. Mahima Patil W/O- Mukesh Patil (Guarantor).		

**Property Mortgaged:** All piece and parcel of land together with structures thereon and constructed Commercial cum Residential Property situated at Plot No.-27 Land Part of Survey No.-36 (Old Survey No-29/1) of Sujapur kala House No.-166 Surgaon Joshi, Dist.-Khandwa (M.P.) Plot Area-0.018 Hectre (1920 Sq.Feet)

**Owned by:** Mukesh Patil. Boundaries - East Land of Balvantrao Mahipaturo, West Remaining Land Part of old Survey No.29/1, North Land of H.K.Nagda, South Land of Amarchand Phoolchand Katariya.

\*Subsequent interest till date is also due.

The borrower & guarantors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the said property will be subject to the charge of the HDFC Bank Ltd. for an amount of Rs. 17,58,122.66 (Rupees Seventeen Lakhs Fifty Eight Thousand One Hundred Twenty Two and Paise Sixty Six Only) due as on 30th Jun 2019, and interest thereon from 1st July 2019.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Date: 29.07.2022  
 Authorised Officer  
 Place : Khandwa, Madhya Pradesh For HDFC Bank Limited, Authorised Officer

**TENDER CARE** — Advertoiral

**SBI TO PRIORITIZE HOUSING AND PROPERTY LOANS**

The State Bank of India (SBI) would prioritize and give instant loans to those who want to purchase a land or house, said Chief General Manager of SBI Radha Krishna. Speaking to reporters after participating in a meeting held with the builders in Coimbatore, Radha Krishna said that SBI would start focusing on giving loans for realtors and builders and to those who want to construct and buy houses. Along with Radha Krishna, Coimbatore Module Deputy General Manager Dileep Singh Yadav, realtors and builders participated in the meeting.

**BOM INAUGURATES STATE OF THE ART BRANCH AT KAMAREDDY, TELANGANA**

BOM inaugurates state of the art branch at Kamareddy at the hands of Jitesh V Patil I.A.S., District collector & Magistrate Kamareddy District, Telangana State in the presence of G Ananth Kumar Deputy Zonal Manager, BoM, Hyderabad Zone along with C Ramesh LDM, Kamareddy BoM opened a new state of the art branch at Vikas Nagar near Honda showroom, Kamareddy District in (Telangana) with the opening of this branch, BOM now has a total of 44 branches spread in 22 Districts in Telangana state. GLaxmikanth Branch Manager, Kamareddy Branch has thanked all the dignitaries and customers who attended the Grand opening of Kamareddy Branch.

**INDIAN BANK FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER ENDED 30th JUNE 2022**

Bank's Global Business is above ₹10 Lakh Cr operating profit up by 30% Q-o-Q, 4% Y-o-Y. Net profit up by 23% Q-o-Q, 3% Y-o-Y. Key Highlights of quarter ended Jun'22 over Jun'21: Net Profit up by 3% YoY at ₹1213 Cr in Jun'22 from ₹1182 Cr in Jun'21. Operating profit for Jun'22 up by 4% YoY at ₹3564 Cr from ₹3416 Cr in Jun'21. Net Interest Income increased by 13% YoY to ₹4534 Cr in Jun'22 from ₹3995 Cr in Jun'21. Fee based income grew by 35% to ₹627 Cr in Jun'22. Key Highlights of quarter ended Jun'22 over March'22: Net Profit up by 23% Q-o-Q at ₹1213 Cr in Jun'22 from ₹984 Cr in Mar'22. Operating profit increased by 30% at ₹3564 Cr in Jun'22 from ₹2738 Cr in Mar'22 due to increase in spread & other income. Net Interest Income grew by 7% in Jun'22 to ₹4534 Cr from ₹4255 Cr in Mar'22. Non-Interest Income (excluding treasury income) increased by 17% to ₹1736 Cr in Jun'22 from ₹1489 Cr in Mar'22. Key Highlights of Business Performance as on 30th June 2022: Total Business recorded a YoY growth of 9% reaching the level of ₹1009454 Cr in Jun'22 as against ₹929708 Cr in Jun'21. Advances grew by 9% to ₹425203 Cr in Jun'22 over ₹389626 Cr a year ago, primarily driven by the growth in RAM sector (12%); of which Retail, Agriculture and MSME grew by 14%, 13% and 8% respectively. On a sequential quarterly basis advances grew by 2%. Total Deposits grew by 8% YoY to ₹584251 Cr in Jun'22 as compared to ₹540082 Cr during the corresponding period a year ago. CASA deposits recorded a YoY growth of 8% and stood at ₹237967 Cr in Jun'22. The share of domestic CASA to domestic deposits was 41.29% in Jun'22 as against 41.42% a year ago. CASA growth was driven by 14% YoY growth in Current Account deposits and 7% YoY growth in Savings account deposits. Priority Sector portfolio increased to ₹159653 Cr in Jun'22 from ₹148806 Cr in Mar'22. Priority sector advances as a percentage of ANBC stood at 46.91% as against the regulatory requirement of 40%.

**CLIX CAPITAL PARTNERS WITH BANK OF BARODA TO DISBURSE LOANS IN THE HEALTHCARE EQUIPMENT SPACE**

Clix Capital (Clix) has entered into an exclusive co-lending partnership, dedicated to healthcare financing, with Bank of Baroda (Bank), one of India's leading public sector banks. Under the partnership, Clix and Bank of Baroda will provide loans at affordable rates in the healthcare equipment space, across Tier 2 cities and beyond.

This is also the very first truly digital co-lending partnership in the industry, with a fully automated end-to-end digital journey. This collaboration will enable the development of healthcare and diagnostic infrastructure across India, by providing financing for the purchase of medical equipment for doctors, clinics, hospitals, and diagnostic centers.

Speaking on the partnership with Bank of Baroda, Rakesh Kaul, CEO, Clix Capital said, "This association will open up the industry to an entirely new gamut of co-lending partnerships between banks & NBFCs. While MSME financing is a core area for Clix Capital as a lender, we are delighted to be taking it to another level with Bank of Baroda. We believe that this alliance will help us not just service MSMEs across India digitally, but also help in nation-building by supporting the development of healthcare infrastructure. With Bank of Baroda's wide network & in-depth knowledge of the Indian market, and Clix's deep understanding of the healthcare ecosystem & its strong underwriting capabilities, together, we can spearhead financial inclusion for MSMEs in the healthcare segment across India."

Dhrubashish Bhattacharya, Head - MSME Business, Bank of Baroda said, "The healthcare sector is undoubtedly a priority for India over the next many years. India requires substantial investment to improve the quality of healthcare services as well as build capacity. And this is especially true for the country's smaller cities. This partnership with Clix Capital will provide Bank of Baroda with critical access to key players in the healthcare ecosystem operating in the heartland of India and enable us to extend credit and a range of funding options as they endeavour to build scale to meet the healthcare needs of the country."

**BANK OF MAHARASHTRA BAGS AGRICULTURE INFRASTRUCTURE FUND AWARD FOR ACHIEVING CAMPAIGN PERIOD TARGET**

Bank of Maharashtra (BoM), a premier public sector bank in the country bags Agriculture Infrastructure Fund award for achieving "Campaign Period Target" at the hands of Union Minister of Agriculture & Farmers Welfare Narendra Singh Tomar. Vijay N Kamble, General Manager, Credit Priority-Agriculture, FI & SLBC, Bank of Maharashtra received the prestigious award on behalf of the Bank. The award ceremony held on 30th July, 2022 at A.P Shinde Hall, NAS Complex, PUSA Road, New Delhi. The farsighted Agri Infra Fund scheme has been endeavouring to transform the agriculture infrastructure landscape of the country, while assuring a smile on the face of farmers, Agri entrepreneurs, Start-ups, APMCs, farmer groups like SHG, FPOs, PACS etc.

Agriculture Infrastructure Fund (AIF), envisage of providing Medium-Long term debt financing facility for investment in viable post-harvest management Infrastructure and community farming assets with Central Government support of Interest subvention and Credit Guarantee from COTMSE.

**PDS Limited**  
 Global, Collaboration, Digital, Ethical  
 (Erstwhile PDS Multinational Fashions Limited)

Global, Collaboration, Digital, Ethical

₹2,340 Cr Q1 FY23 Topline 44% growth vs Q1 FY22

128% Increase in Operating Profit vs Q1 FY22

₹44 cr Q1 FY23 PAT up 141% vs Q1 FY22

₹14.19 Q1 FY23 Basic EPS

Sales (₹ in Cr) 1,626 (Q1 FY22) 2,340 (Q1 FY23) 44%

PAT (₹ in Cr) 18 (Q1 FY22) 44 (Q1 FY23) 141%

ROCE % 26% (Q1 FY22) 30% (Q1 FY23)

ROES % 22% (Q1 FY22) 28% (Q1 FY23)

Note: ROCE based on Net Capital Employed, EBIT includes other income emanating from capital employed. \*Q1 FY22 excludes the profit from sale of real estate.

**Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022**

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30 Jun. 2022 (Unaudited)	31 Mar. 2022 (Audited)	30 Jun. 2021 (Unaudited)	31 Mar. 2022 (Audited)
1	Revenue from operations	2,34,037.49	2,77,543.88	1,62,621.24	8,82,821.38
2	Other income	268.22	2,133.75	4,864.23	8,602.74
3	Total income	2,34,305.71	2,79,677.63	1,67,485.47	8,91,424.12
4	Total operating expense	2,29,527.87	2,70,285.77	1,61,388.69	8,60,358.46
5	Earnings before interest and tax	5,704.33	10,497.78	6,571.35	33,867.49
6	Net profit for the period/year (before tax and exceptional items)	4,777.84	9,391.86	6,096.78	31,065.66
7	Net profit for the period/year before tax (after exceptional items and share of loss from associates and joint ventures)	4,729.65	9,273.40	6,178.53	31,007.80
8	Net profit for the period/year after tax (after exceptional items and share of loss from associates and joint ventures)	4,417.89	8,622.99	5,	



